



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

8 आषाढ़, 1940 (श०)

संख्या- 629 राँची, शुक्रवार

29 जून, 2018 (ई०)

---

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

.....

आदेश

12 जून 2018

संख्या-03नि0पं0-22/2016 रा0नि0आ0 1046.. यतः राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2015 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65क 'क' सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर (यदि कोई हो) विचार करने के

पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त या न्यायौचित्य कारण नहीं है ;

अतः इस संबंध में उपायुक्त, गढ़वा के प्रतिवेदन/अनुपूरक प्रतिवेदन एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क, सहपठित झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65'क' 'क' के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों/स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित किया जाता है ।

क्रमांक	जिला	निर्वाचन क्षेत्र	नाम एवं पता	कारण
1	2	3	4	5
1	गढ़वा	I गढ़वा-(01)	गीता देवी, ग्राम-चन्दनी, प्रखण्ड-खरौंधी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2		I गढ़वा-(01)	सीमा देवी, ग्राम-राजी, प्रखण्ड-खरौंधी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
3		I गढ़वा-(02)	प्रदीप साव, ग्राम-बासडीह खूर्द, प्रखण्ड-केतार	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
4		I गढ़वा-(02)	ब्रह्मदेव यादव, ग्राम-चेचरीया, प्रखण्ड-केतार	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
5		I गढ़वा-(03)	कबुतरी कुंअर, ग्राम-मकरी, प्रखण्ड-भवनाथपुर	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
6		I गढ़वा-(03)	माला देवी, ग्राम-रोहनीयाँ, प्रखण्ड-भवनाथपुर	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
7		I गढ़वा-(03)	रानी स्मिता, ग्राम-भवनाथपुर, प्रखण्ड-भवनाथपुर	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
8		I गढ़वा-(05)	अनुप कुमार राम, ग्राम-सेमौरा, प्रखण्ड-काण्डी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
9		I गढ़वा-(05)	अरुण रजक, ग्राम-सोहगाड़ा, प्रखण्ड-काण्डी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

10	I गढ़वा-(07)	विनु देवी, ग्राम-मोरबे, प्रखण्ड-मझिआँव	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
11	I गढ़वा-(07)	सविता देवी, ग्राम-करुई, प्रखण्ड-मझिआँव	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
12	I गढ़वा-(10)	बिंदा देवी, ग्राम-भोजपुर, प्रखण्ड-नगर उंटारी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
13	I गढ़वा-(11)	उपेन्द्र यादव, ग्राम-कटहरकलां, प्रखण्ड-सगमा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
14	I गढ़वा-(11)	सुभद्रा देवी, ग्राम-पुतुर, प्रखण्ड-सगमा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
15	I गढ़वा-(16)	शारदा देवी, ग्राम-पतहरीया, प्रखण्ड-मेराल	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
16	I गढ़वा-(16)	सावित्री देवी, ग्राम-सोहबरिया, प्रखण्ड-मेराल	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
17	I गढ़वा-(17)	अरुण कुमार पाण्डेय, ग्राम-कल्याणपुर, प्रखण्ड-गढ़वा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
18	I गढ़वा-(17)	आनन्द कुमार तिवारी, ग्राम-विशुनपुर, प्रखण्ड-गढ़वा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
19	I गढ़वा-(18)	मिथलेश पासवान, ग्राम-मेढ़ना खुर्द, प्रखण्ड-गढ़वा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
20	I गढ़वा-(18)	मुंग बिहारी राम, ग्राम-खूरा, प्रखण्ड-गढ़वा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
21	I गढ़वा-(19)	उमेश त्रिपाठी, ग्राम-बेलहारा, प्रखण्ड-गढ़वा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
22	I गढ़वा-(19)	ब्रजेश कुमार, ग्राम-करुआ खुर्द, प्रखण्ड-गढ़वा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
23	I गढ़वा-(19)	विनोद तिवारी, ग्राम-करुआकला, प्रखण्ड-गढ़वा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

## झारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 29 जून, 2018

24	I गढ़वा-(21)	अनिरुद्ध सिंह, ग्राम-तमगेकला, प्रखण्ड-रंका	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
25	I गढ़वा-(21)	आयशा खातन, ग्राम-रंकाकला, प्रखण्ड-रंका	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
26	I गढ़वा-(21)	जनेश्वर प्रसाद, ग्राम-तमगेकला, प्रखण्ड-रंका	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
27	I गढ़वा-(21)	देवेन्द्र तिवारी, ग्राम-खूरा, प्रखण्ड-रंका	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
28	I गढ़वा-(21)	पिताम्बरी कुमारी, ग्राम-पुरेगाड़ा, प्रखण्ड-रंका	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
29	I गढ़वा-(21)	विमली देवी, ग्राम-गासेदाग, प्रखण्ड-रंका	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
30	I गढ़वा-(21)	सुरेन्द्र राम, ग्राम-तमगेकला, प्रखण्ड-रंका	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
31	I गढ़वा-(24)	मानिक चन्द्र कोरवा, ग्राम-लिधकी नगनाहा, प्रखण्ड-भण्डरिया	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
32	I गढ़वा-(24)	विनय सिंह, ग्राम-नौका, प्रखण्ड-भण्डरिया	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
33	I गढ़वा-(25)	जय प्रकाश मिंज, ग्राम-गोठानी, प्रखण्ड-बड़गड़	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
34	I गढ़वा-(25)	बिहारी यादव, ग्राम-परसवार, प्रखण्ड-बड़गड़	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
35	I गढ़वा-(01)	कविता देवी, ग्राम-चन्दनी, प्रखण्ड-खरौंधी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
36	I गढ़वा-(05)	सत्येन्द्र राम, ग्राम-बेलहथ, प्रखण्ड-काण्डी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
37	I गढ़वा-(06)	आमीर रजा, ग्राम-आदर, प्रखण्ड-बरडीहा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
38	I गढ़वा-(07)	माया गुप्ता, ग्राम-खरसोता, प्रखण्ड-मझिआँव	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
39	I गढ़वा-(08)	सलमा बीबी, ग्राम-पतिहारी, प्रखण्ड-विशुनपुरा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
40	I गढ़वा-(08)	लालती देवी, ग्राम-विशुनपुरा, प्रखण्ड-विशुनपुरा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
41	I गढ़वा-(15)	अशोक कुमार, ग्राम-मेराल, प्रखण्ड-मेराल	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
42	I गढ़वा-(16)	ललिता देवी, ग्राम-सोहबरिया, प्रखण्ड-मेराल	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
43	I गढ़वा-(19)	तारा खातून, ग्राम-लापो, प्रखण्ड-गढ़वा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
44	I गढ़वा-(21)	संजय राम, ग्राम-रंकाखूर्द, प्रखण्ड-रंका	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

45	I गढ़वा-(07)	रानी देवी, ग्राम-करुई, प्रखण्ड-मझिआँव	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
46	I गढ़वा-(05)	मीरा देवी, ग्राम-पतिला, प्रखण्ड-काण्डी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
47	I गढ़वा-(05)	नागदेव राम ग्राम-मोखापी, प्रखण्ड-काण्डी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
48	I गढ़वा-(13)	कौशलया देवी, ग्राम-जरही, प्रखण्ड-डंडई	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
49	I गढ़वा-(21)	मोहम्मद अंसारी, ग्राम-रंका कला, प्रखण्ड-रंका	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
50	I गढ़वा-(21)	दिलीप कुमार सिंह, ग्राम-रंका कला, प्रखण्ड-रंका	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
51	I गढ़वा-(22)	रेणु देवी, ग्राम-हुरदाग, प्रखण्ड-रंका	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
52	I गढ़वा-(24)	राम वृक्ष सिंह, ग्राम-बघवार, प्रखण्ड-भण्डरिया	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

**ह० /-(अस्पष्ट),**

उप निर्वाचन आयुक्त,  
राज्य निर्वाचन आयोग,  
झारखण्ड, राँची।

-----